

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-26112024-258917
SG-DL-E-26112024-258917असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305]	दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 22, 2024/अग्राहायण 1, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 270
No. 305]	DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 2024/AGRAHAYANA 1, 1946	[N. C. T. D. No. 270

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIXkq xkfcln fl g blniz LFk fofofo | ky;
vfekl ipuk

दिल्ली, 18 नवम्बर, 2024

Ok-l athth, l vkbñ h; @dkM@vksvkj Mh- 32vkj 33@80oha chvks, e@vedM@2023&24@351.— अधिसूचना सं. आईपीवी/जेआर(सी)/ऑर्ड.32/बीओएम 43/2012/487 दिनांक 19.06.2012 द्वारा अधिसूचित वृत्तिक आचार नीति, अनुशासन, शास्ति एवं अपील नियम (अध्यापन स्टाफ) आचार संहिता से संबंधित अध्यादेश 32 एवं अधिसूचना सं0 आईपीवी/जे आर (सी)/ऑर्ड. 34/बी ओ एम 47 /2011/377 दिनांक 14.02.2012 के द्वारा अधिसूचित अनुशासन, शास्ति एवं अपील नियम (गैर शिक्षण स्टाफ)आचार संहिता से संबंधित अध्यादेश 33 के आंशिक सुधार तथा गुरु गोबिंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 (1998 का अधिनियम 9) की धारा 27 (2) के प्रावधानों के अनुपालन में, गुरु गोबिंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल ने 03.11.2023 को आयोजित अपनी 80 वीं बैठक में कार्यसूची मद संख्या 80.15 के संकल्प द्वारा अधिसूचित अध्यादेश 32 और 33 की निम्न धाराओं में आंशिक संशोधनों/ स्पष्टीकरणों को स्वीकृति दे दी:

v/; knşk	[k. M	onşeku i ko/kku	Lşkkf/kr i ko/kku
v/; knşk 32% 0; kol kf; d uñfr l fgrk] vuşkl u] nM o vihy fu; ekoyh %v/; ki u LVkQ%	1.1 (घ)	“अनुशासनिक प्राधिकारी” का अर्थ प्रचलित केन्द्रीय लोकसेवा आचरण नियमावली में विनिर्दिष्ट दण्डों में से कोई दण्ड अध्यापक को देने के लिए संलग्न अनुसूचि के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी से है।	“अनुशासनिक प्राधिकारी” का अर्थ प्रचलित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 में विनिर्दिष्ट दण्डों में से कोई दण्ड अध्यापक को देने के लिए संलग्न अनुसूचि के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी से है।

v/; knशक	[k. M	orleku i ko/kku	Lशकf/kr i ko/kku
	Hkkx&II	fuycu] n. M , oa vi hy bR; kfn सभी अध्यापक इन नियमों में से किसी नियम के उल्लंघन के लिए निलम्बन और दण्ड आरोपण संबंधी अधिनियम, संविधि और अध्यादेशों के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे। दण्ड आरोपित करने की प्रक्रिया तथा ऐसी किसी कार्यवाही के विरुद्ध अपील दायर करने की प्रक्रिया तत्समय उपलब्ध केन्द्रीय लोकसेवा आचरण नियमावली के अनुरूप ही होंगे।	fuycu] n. M , oa vi hy bR; kfn सभी अध्यापक इन नियमों में से किसी नियम के उल्लंघन के लिए निलम्बन और दण्ड आरोपण संबंधी अधिनियम, संविधि और अध्यादेशों के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे। दण्ड आरोपित करने की प्रक्रिया तथा ऐसी किसी कार्यवाही के विरुद्ध अपील दायर करने की प्रक्रिया तत्समय उपलब्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1965 के अनुरूप ही होंगे।
	Hkkx&III	दण्ड आरोपित करने की प्रक्रिया गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम की संविधि 22 के अन्तर्गत यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी कर्मचारी प्रचलित केन्द्रीय लोक सेवा आचरण नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नियन्त्रित होंगे।	दण्ड आरोपित करने की प्रक्रिया गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम की संविधि 22 के अन्तर्गत यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी कर्मचारी प्रचलित तत्समय प्रभावी सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के प्रावधानों के अनुसार नियन्त्रित होंगे।
	vuq iph	दण्ड आरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (अल्प/ प्रधान)-केन्द्रीय लोक सेवा आचरण नियमावली के प्रावधानों के अनुसार।	दण्ड आरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (अल्प/ प्रधान)- तत्समय प्रभावी के.सि. सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के अनुसार।
v/; knशक 33 vkpj .k I fgrk vuqkkl u] I fgrk nM o vi hy fu; ekoyh %xj शक{k. k LVkQ%	2U1 %?k%	“अनुशसनिक प्राधिकारी” का अर्थ प्रचलित केन्द्रीय लोकसेवा नियमावली में विनिर्दिष्ट दण्डों में से कोई दण्ड किसी कर्मचारी को देने के लिए संलग्न अनुसूचि के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी से है।	“अनुशसनिक प्राधिकारी” का अर्थ प्रचलित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 में विनिर्दिष्ट दण्डों में से कोई दण्ड किसी कर्मचारी को देने के लिए संलग्न अनुसूचि के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी से है।
	Hkkx&III	fuycu] n. M , oa vi hy bR; kfn गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम की संविधि 22 के अंतर्गत यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी कर्मचारी प्रचलित केन्द्रीय लोक सेवा आचरण नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नियन्त्रित होंगे।	fuycu] n. M , oa vi hy bR; kfn गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम की संविधि 22 के अंतर्गत यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी कर्मचारी प्रचलित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली -1965, जो उस समय प्रभावी होगी, के प्रावधानों के द्वारा नियंत्रित होंगे।
	Hkkx&IV	i pfufj h{k. k , oa i pfj koykdu प्रचलित केन्द्रीय लोक सेवा आचरण नियमावली के प्रावधानों के अनुसार होगा।	i pfufj h{k. k , oa i pfj koykdu प्रचलित तत्समय प्रभावी केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1965 के प्रावधानों के अनुसार होगा।
	vuq iph	दण्ड आरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (अल्प/ प्रधान)-केन्द्रीय लोक सेवा आचरण नियमावली के प्रावधानों के अनुसार।	दण्ड आरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (अल्प/ प्रधान)- केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1965 के प्रावधानों के अनुसार।

यह संशोधित अध्यादेश, प्रबंध मंडल द्वारा दिये गये स्वीकृति दिनांक अर्थात् 03.11.2023 से प्रभावी होगा।

आदेशकर्ता,

डॉ० कमल पाठक] कुलसचिव

GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY**NOTIFICATION**

Delhi, the 18th November, 2024

F.No. GGSIPU/Coord/Ord.32& 33/80th BOM/Amend/2023-24/351.—In partial amendment to the Ordinance 32 relating to ‘Code of Professional Ethics, Discipline, Penalty & Appeal Rules (Teaching Staff)’ notified vide Notification No. IPV/JR (C)/ Ord.32/BOM 43/2012/487 dated 19.06.2012 and Ordinance 33 relating to ‘Code of Conduct, Discipline, Penalty & Appeal Rules (Non –Teaching Staff)’ notified vide notification no. IPV/JR(C)/Ord.34/BOM 47/2011/377 dated 14.02.2012 and in pursuance of the provisions of Section 27 (2) of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act 1998 (Act 9 of 1998), the Board of Management of the Guru Gobind Singh Indraprastha University in its 80th meeting held on 03.11.2023 vide resolution to agenda item no. 80.15 approved partial amendment/ clarifications in the following clauses of the notified Ordinances 32 and 33:

Ordinance	Clause	Existing Provision	Amended Provision
Ordinance 32: Code of Professional Ethics, Discipline, Penalty & Appeal Rules (Teaching Staff)	1.1 (d)	“Disciplinary Authority” means the authority competent under these rules to impose on an Teacher any of the penalties specified in as per provisions of CCS rules found in consonance with the schedule appended.	“Disciplinary Authority” means the authority competent under these rules to impose on an Teacher any of the penalties specified in as per provisions of Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 found in consonance with the schedule appended.
	PART-II	SUSPENSION, PUNISHMENT & APPEALS ETC. All the teachers shall be governed by the provisions of the Act, Statutes and Ordinances regarding suspension and imposition of penalties for any breach of these rules. The procedure for imposition of penalties and preference of appeals against any such action shall be as per Central Civil Services (CCS) Conduct Rules found in force.	SUSPENSION, PUNISHMENT & APPEALS ETC. All the teachers shall be governed by the provisions of the Act, Statutes and Ordinances regarding suspension and imposition of penalties for any breach of these rules. The procedure for imposition of penalties and preference of appeals against any such action shall be as per Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 found in force.
	PART-III	PROCEDURE FOR IMPOSING PENALTIES Procedure for imposing penalties shall be as per Central Civil Services (CCS) Conduct Rules found in force and no order shall be passed except as provided under Statute 22 of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act.	PROCEDURE FOR IMPOSING PENALTIES Procedure for imposing penalties shall be as Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 found in force and no order shall be passed except as provided under Statute 22 of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act.
	SCHEDULE	Authority competent to impose penalties (minor/ major) as per CCS rules found in force	Authority competent to impose penalties (minor/ major) as per Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 found in force.
Ordinance 33: Code of Conduct, Discipline, Penalty & Appeal Rules (Non – Teaching Staff)	2.1 (d)	“Disciplinary Authority” means the authority competent under these rules to impose on an employee any of the penalties in the CCS rules found in force in consonance with the schedule appended.	“Disciplinary Authority” means the authority competent under these rules to impose on an employee any of the penalties in the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 found in force in consonance with the schedule appended.

Ordinance	Clause	Existing Provision	Amended Provision
	PART-III	SUSPENSION, PUNISHMENT & APPEALS, ETC. Except as provided under Statue 22 of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act, an employee shall be governed by the provisions as per Central Civil Services (CCS) Conduct Rules found in force.	SUSPENSION, PUNISHMENT & APPEALS, ETC. Except as provided under Statue 22 of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act, an employee shall be governed by the provisions as per Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 found in force.
	PART-IV	Revision and Review shall be governed by the provisions as per Central Civil Services (CCS) Conduct Rules in force.	Revision and Review shall be governed by the provisions as per Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 found in force.
	THE SCHEDULE	Authority competent to impose penalties (minor / major) as per CCS rules found in force	Authority competent to impose penalties (minor / major) as per Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 found in force.

This revised Ordinance shall come into force with effect from the date of approval by the Board of Management i.e. 03.11.2023.

By Order,
Dr. KAMAL PATHAK, Registrar